

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 अप्रैल 2015—चैत्र 26, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2015 ( चैत्र 26, 1937 )

क्र. 8383-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ.

भोपाल :  
दिनांक 13 अप्रैल 2015

राम नरेश यादव  
राज्यपाल,  
मध्यप्रदेश.”

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.